



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 28 दिसम्बर, 2024 ई० (पौष 07, 1946 शक संवत्) [संख्या 52

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	955-962	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	257-258	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	949-998	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1241-1260	975
			स्टोर्स-पर्वज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**संस्कृति विभाग**

प्रथम अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2023 ई०

सं० 7401/चार-2023—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं—

**अनुसूची**

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
हेक्टेयर							
1	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	ग्राम/परगना- ऊँचाहार /सलोन, तहसील- ऊँचाहार	खानम माह परवर का मकबरा	3710	0.2970	उत्तर—राजस्व गाटा संख्या 3710 का शेष भाग। दक्षिण—राजस्व गाटा संख्या 3710 का शेष भाग। पूर्व—राजस्व गाटा संख्या 3710 का शेष भाग। पश्चिम— राजस्व गाटा संख्या 3710 का शेष भाग।

**सूचना**

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचि, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, मथुरा

को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,  
राकेश चन्द्र शर्मा,  
विशेष सचिव।

**SANSKRITI DEPARTMENT**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 7401/Four-2023 Dated December 06, 2023 for general Information.

**NOTIFICATION**

*December 06, 2023*

**No. 7401/Four-2023**—In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act. no. VII of 1904.

**Schedule**

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument-Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Raebareli	Village/Sub division- Unchahar Salon Tehsil- Unchahar	Tomb of Khanum Mah Parvar	3710	0.2970	North-Remaining portion of Revenue plot number 3710. <i>South</i> -Remaining portion of Revenue plot number 3710. <i>East</i> -Remaining portion of Revenue plot number 3710. <i>West</i> -Remaining portion of Revenue plot number 3710.

**Intimation**

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Agra within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By order,

Rakesh Chandra Sharma,

*Special Secretary*

## संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2023 ई०

सं० 7402/चार-2023—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं—

### अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	मथुरा	ग्राम-धौरैरा बांगर, (वृन्दावन) तहसील-सदर	अक्रूर मन्दिर	305मि० 306 307	0.0360 0.1380 0.0200	उत्तर—पक्की सड़क दक्षिण—हायानन्द गोचर भूमि पूर्व—मकान वीर सिंह पश्चिम—जमीन किशन सिंह आदि
						<b>0.194</b>	

### सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, मथुरा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,  
राकेश चन्द्र शर्मा,  
विशेष सचिव।

**SANSKRITI DEPARTMENT**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 7402/Four-2023 Dated December 06, 2023 for general nformation.

**NOTIFICATION**

*December 06, 2023*

**No. 7402/Four-2023**—In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act. no. VII of 1904.

**Schedule**

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument-Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Mathura	Village-Dhauraura Bangar, (Vrindavan) Tehsil-Sadar	Akrur Mandir	305 Mi 306 307 Mi	0.0360 0.1380 0.0200	North-Pakki Road South-Hayanand Gochar Bhumi. East-House of Veer Singh West-Land of Kishan Singh and others
						0.194	

**Intimation**

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Mathura within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By order,  
Rakesh Chandra Sharma,  
*Special Secretary.*

## संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2023 ई०

सं० 7403/चार-2023—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करते हैं—

### अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
हेक्टेयर							
1	उत्तर प्रदेश	आगरा	विकास खण्ड-फतेहाबाद	बादशाही बाग	799	8.711	चारो ओर से बाऊन्ड्रीवाल से घिरा है। सीमाओं के साथ गाटा संख्या—763, 765, 768, 773, 795, 796, 801, 805, 806, 808, 809 एवं 810 विद्यमान है।
2	“	“	“	बारादरी/छतरी, हाथी घाट (क) हाथीघाट (तालाब) (ख) बारादरी एवं छतरी	430/1 99/4	1.602 1.486	गाटा संख्या—340, 425, 428, 429, 430/2, 431 एवं 432 राजस्व गाटा संख्या 430 की सीमा निर्धारित करते हैं। चारो ओर से आबादी से घिरा है।

**सूचना**

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखन, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, आगरा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,  
राकेश चन्द्र शर्मा,  
विशेष सचिव।

**SANSKRITI DEPARTMENT**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification

No. 7403/Four-2023 Dated December 06, 2023 for general Information.

**NOTIFICATION**

*December 06, 2023*

**No. 7403/Four-2023**—In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the Schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act. no. VII of 1904.

**Schedule**

SI. No	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument-sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Agra	Fatehabad	Badshahi Bagh	799	8.711	It is surrounded by Boundary wall on all sides. Revenue Plot Numbers of Boundary are 763, 765, 768, 773, 795, 796, 801, 805, 806, 808, 809 and 810.

1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
2	Do	Do	Do	Baradari/ Chhatari, Hathi Ghat			Revenue Plot No. 340, 425, 428, 429, 430/2, 431 and 432
				(a) Hathi Ghat (Talab)	430/1	1.602	determine the extent of Revenue Plot Number 430/1
				(b) Baradari and Chhatari			It is Surrounded by Population on all Sides.
					99/4	1.486	

### Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Agra within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By order,  
Rakesh Chandra Sharma,  
*Special Secretary.*





# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, २८ दिसम्बर, २०२४ ई० (पौष ०७, १९४६ शक संवत्)

### भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

**जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति**

**कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज**

**लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-४ (कु०मे०), लो०नि०वि०, प्रयागराज**

**प्रारूप-१८**

**नियम-२० का उपनियम (२)**

**समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना**

**(अधिनियम की धारा-११ की उपधारा (१) के अन्तर्गत)**

**अधिसूचना**

**३० नवम्बर, २०२४ ई०**

सं० ३३७/आठ-वि०मि०-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०)/प्रयागराज-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा-११ की उपधारा (१) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि (अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-४(कु०मे०), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज) (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनपद प्रयागराज, तहसील सोरांव के ग्राम बहमलपुर, (फोरलेन मार्ग), में प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता है।

१- डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर/उपजिलाधिकारी, सोरांव, प्रयागराज को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

२- अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

## अनुसूची

क्र०सं०	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
1	प्रयागराज	सोरांव	बहमलपुर	579 मि०	0.0004 (भूमिधरी)
2				571ख	0.0024 (भूमिधरी)
3				576	0.0050 (भूमिधरी)
4				572	0.0022 (भूमिधरी)
5				613	0.0110 (भूमिधरी)
6				859	0.0410 (भूमिधरी / शासकीय)
7				858	0.0420 (भूमिधरी / शासकीय)
8				860 मि०	0.0004 (भूमिधरी / शासकीय)
9				860	0.0035 (भूमिधरी / शासकीय)
10				860 मि०	0.0054 (भूमिधरी / शासकीय)
योग .					0.1133

3— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीय, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाये करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

4— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 07 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

5— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

रविन्द्र कुमार मॉदड़,  
समुचित सरकार/कलेक्टर,  
प्रयागराज।

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT, PRAYAGRAJ

## FORM-18

## [Sub-rule (2) of rule 20]

## PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

## NOTIFICATION

November 30, 2024

**No. 337/8-Vi.Mi.-SLAO(J.O.)PRG**—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of

Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) on the report/proposal dated 29.11.2024 sent by Executive Engineer, Construction Division-4(Ku.Me.) P.W.D. Prayagraj, is satisfied that Area of 0.1133 Hect. in village Bahmalpur, Tehsil-Soranv, District Prayagraj of land is required for construction of Phaphamau-Sahso Marg in village Bahmalpur (four lane) (Public Purpose).

1- The Deputy Collector/Assistant Collector, Soranv, Prayagraj is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

2- There fore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

### SCHEDULE

#### Land Details

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be acquired (in hect.)
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
1	Prayagraj	Soranv	Bahmalpur	579 Mi	0.0004 (Private)
2				571 Kha	0.0024 (Private)
3				576	0.0050 (Private)
4				572	0.0022 (Private)
5				613	0.0110 (Private)
6				859	0.0410 (Private/Govt.)
7				858	0.0420 (Private/Govt.)
8				860 Mi	0.0004 (Private/Govt.)
9				860	0.0035 (Private/Govt.)
10				860 Mi	0.0054 (Private/Govt.)
<b>Total ..</b>					<b>0.1133</b>

3- The Governor is also pleased to authorised the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, Take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.

4- Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 07 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector/ SLAO(J.O.) Prayagraj.

5- Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector Prayagraj.

Ravindra Kumar Mander,  
Appropriate Government/Collector,  
Prayagraj.

**कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज****लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-4 (कु०मे०), लो०नि०वि०, प्रयागराज****प्रारूप-19****नियम-27 का उपनियम (1)****समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा****[(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]****अधिसूचना****13 दिसम्बर, 2024 ई०**

सं० 354/आठ-वि०मि०-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०)/प्रयागराज-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कु०मे०), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनपद प्रयागराज, तहसील सोरांव के ग्राम बहमलपुर, (फोरलेन मार्ग), में प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 337/आठ-वि०मि०-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) प्रयागराज, दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" व "अमर उजाला" में दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। उप जिलाधिकारी, सोरांव, प्रयागराज को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिसूचना की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव के अर्जित ग्राम बहमलपुर में प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण परियोजना से किसी भी व्यक्ति या परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी दशा में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि शून्य है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन जिला प्रयागराज के कलेक्टर को इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर भूमि राज्य सरकार में समाहित होकर अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कु०मे०), लो०नि०वि०, प्रयागराज को निर्माण हेतु हस्तगत करें।

**अनुसूची-क****(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)**

क्र०सं०	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर—					
1	प्रयागराज	सोरांव	बहमलपुर	579 मि०	0.0004 (भूमिधरी)
2	"	"	"	571ख	0.0024 (भूमिधरी)
3	"	"	"	576	0.0050 (भूमिधरी)
4	"	"	"	572	0.0022 (भूमिधरी)
5	"	"	"	613	0.0110 (भूमिधरी)

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर—
6	“	“	“	859	0.0410 (भूमिधरी / शासकीय)
7	“	“	“	858	0.0420 (भूमिधरी / शासकीय)
8	“	“	“	860 मि0	0.0004 (भूमिधरी / शासकीय)
9	“	“	“	860	0.0035 (भूमिधरी / शासकीय)
10	“	“	“	860 मि0	0.0054 (भूमिधरी / शासकीय)
योग .					<b>0.1133</b>

## अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि का विवरण)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर—
प्रयागराज	सोरांव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

## कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4(कु0मे0), लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज (आपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनपद प्रयागराज, तहसील सोरांव के ग्राम बहमलपुर, (फोरलेन मार्ग), में प्रस्तावित भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 337/आठ-वि0मि0-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)प्रयागराज, दिनांक 30 नवम्बर, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है—

अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव के अर्जित ग्राम बहमलपुर में प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण परियोजना से किसी भी व्यक्ति या परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी दशा में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि शून्य है।

रविन्द्र कुमार माँदड़,  
कलेक्टर, प्रयागराज।

**PUBLIC WORKS DEPARTMENT, PRAYAGRAJ****Form-19****[Sub-rule (1) of the Rule 27]**

Declaration By Appropriate Government/Collector

Under Sub-Section(1) of Section 19 of the Act

**NOTIFICATION***December 13, 2024*

**No. 354/8-Vi.Mi.-SLAO(J.O.)PRG**—Whereas Preliminary Notification No. 337/8-Vi.Mi.-S.L.A.O.(J.O.) PRG, Dated 30.11.2024 was issued under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), in respect of Area of 0.1133 Hect. in village Bahmalpur, Tehsil-Sorawn, District Prayagraj of land is required for construction of Phaphamau-Sahso Marg in village Bahmalpur (four lane) (Public Purpose) through Executive Engineer, Construction Division-4(ku.Me.), P.W.D., Prayagraj U.P. and lastly published on daily news paper “Daink Jagran” & “Amar Ujala” dated 05.12.2024. The Deputy Collector /Assistant Collector, Sorawn, Prayagraj was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is required for construction of Phaphamau-Sahso Marg in village Bahmalpur (four lane) (Public Purpose) तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव के अर्जित ग्राम बहमलपुर में प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण परियोजना से किसी भी व्यक्ति या परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी दशा में पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि शून्य है।

The Governor is further pleased under sub-section (2) of Section 19 of the Act, land is vested in Government of Uttar Pradesh/Executive Engineer, Construction Division-4(ku.Me.), P.W.D., Prayagraj U.P. and direct the Collector of Prayagraj to give possession of the said acquired land within seven days.

**SCHEDULE-A**

(Land under Proposed Acquisition)

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be acquired (in hect.)
1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					
1	Prayagraj	Soranv	Bahmalpur	579 Mi	0.0004 (Private)
2	”	”	”	571 Kha	0.0024 (Private)
3	”	”	”	576	0.0050 (Private)
4	”	”	”	572	0.0022 (Private)
5	”	”	”	613	0.0110 (Private)
6	”	”	”	859	0.0410 (Private/Govt.)

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
7	”	”	”	858	0.0420 (Private/Govt.)
8	”	”	”	860 Mi	0.0004 (Private/Govt.)
9	”	”	”	860	0.0035 (Private/Govt.)
10	”	”	”	860 Mi	0.0054 (Private/Govt.)
<b>Total . .</b>					<b>0.1133</b>

## SCHEDULE-B

(Land identified as Settement Area for displaced Families)

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
1	Prayagraj	Soranv	Zero	Zero	Zero

## NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

(Under Sub-section 19 of the Act)

By the order of declaration made under Government notification No. 337/8-Vi.Mi.-S.L.A.O. (J.O.)PRG, Dated 30.11.2024 , for Area of 0.1133 Hect. in village Bahmalpur, Tehsil-Sorawn, District Prayagraj of land is required for construction of Phaphamau-Sahso Marg in village Bahmalpur (four lane) (Public Purpose). through Executive Engineer, Construction Division-4(ku.Me.), P.W.D., Prayagraj U.P., I hereby published he declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification, a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below :

अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला प्रयागराज, तहसील सोरांव के अर्जित ग्राम बहमलपुर में प्रयागराज पर्यटन स्थल को फाफामऊ से सहसों को जोड़ने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण परियोजना से किसी भी व्यक्ति या परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है। ऐसी दशा में पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि शून्य है।

Ravindra Kumar Mander,

*Collector, Prayagraj.*

## जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

कार्यालय, जिलाधिकारी, कौशाम्बी

प्रारूप-1

नियम-3 का उपनियम (1)

समाजिक समाघात निर्धारण का प्रारम्भिक अधिसूचना एस०आई०ए०

## अधिसूचना

26 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 390/आठ-वि०कु०-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०)प्रयागराज/2024-राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र के ग्राम/वार्ड स्तर के सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो परामर्श करके निम्नांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को क्रियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत अध्ययन किया जायेगा-

1	अपेक्षक निकाय का नाम	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी।
2	प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य	कौशाम्बी पर्यटक स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से जोड़ने संबंधी फोरलेन मार्ग के निर्माण हेतु।
3	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा	AGRIMAA and Center for Indian Bamboo Resource and Technology, D-152 Third Floor, Street No. 15, Vinod Nagar, New Delhi.
4	संगठन का सम्पर्क विवरण	राजेश कुमार, परियोजना समन्वयक मो० नं०- 8826978266

## भूमि का विवरण-

क्र०सं०	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	प्रस्तावित अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
1	कौशाम्बी	चायल	कसैंदा	94	0.0034
2				92	0.0046
3				102	0.0076
4				142	0.0040
5				143	0.0138
6				176	0.0084
7				176क	0.0084
8				178	0.0154
9				181	0.0046



1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
10	कौशाम्बी	चायल	कसैंदा	182	0.0080
11				179	0.0159
12				180	0.0059
13				172	0.0030
14				148	0.0155
15				147	0.0143
16				91	0.0142
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>0.1470</b>
01			फतेहपुर शहावपुर	349	0.0238
02				371	0.0112
03				403ख	0.0039
04				465	0.0077
05				466	0.0077
06				170	0.0260
07			फतेहपुर शहावपुर	459	0.0066
08				470	0.0260
09				471	0.0150
10				530क	0.0050
11				617ग	0.0027
12				464	0.0420
13				467	0.0100
14				468	0.0302
15				502	0.0150
16				503	0.0047
17				504	0.0037
18				573	0.0120
19				403	0.0399
20				403क	0.0038
21				654क	0.0006
22				483	0.0020

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
23	कौशाम्बी	चायल	फतेहपुर शहावपुर	499	0.0070
24				481	0.0081
25				524	0.0040
26				527	0.0020
27				528	0.0020
28				611	0.0040
29				314ख	0.0046
30				616क	0.0196
31				617ख	0.0074
32				964	0.0020
33				654ख	0.0012
34				620	0.0017
35				959	0.0154
36				465क	0.0037
37				965ख	0.0183
38				966ख	0.0068
39				969ख	0.0024
40				967ख	00.0110
41				966क	0.0113
42				967क	0.0112
43				969क	0.0166
44				971	0.0098
45				976	0.0130
46				984	0.0130
47				972	0.0064
48				531	0.0040
49				532	0.0016
50				975	0.0320
51				974	0.0096
52				973	0.0320

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
53	कौशाम्बी	चायल	फतेहपुर शहावपुर	977	0.0140
54				978क	0.0304
55				978ख	0.0077
56				979ख	0.0080
57				'979ग	0.0176
58				978ग	0.0094
59				479	0.0270
60				480	0.0400
61				982	0.0070
62				983	0.0115
63				979क	0.0234
64				642क	0.0105
65				642ख	0.0105
66				616ख	0.0028
67				618क	0.0114
68				615ख	0.0138
69				648	0.0042
70				649	0.0098
71				651	0.0052
72				652	0.0056
73				653	0.0112
74				404	0.0399
				<b>कुल क्षेत्रफल</b>	<b>0.8916</b>
01			मखरूपुर	185मि	0.0160
02				185मि	0.0410
03				185मि	0.0160
04				187मि	0.0160
05				187मि	0.0100
06				189	0.0150

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
07	कौशाम्बी	चायल	मखऊपुर	190	0.0590
08				191	0.0034
09				194	0.0009
10				195मि	0.0009
11				195मि	0.0120
12				195मि	0.0015
13				231	0.0290
14				232मि	0.0730
15				232मि	0.0020
16				235	0.0030
17				240	0.0310
18				243मि	0.0003
19				243मि	0.0202
20				243मि	0.0003
21				243मि	0.0003
22				277	0.0060
23				280मि	0.0160
24				280मि	0.0160
25				291मि	0.0038
26				291मि	0.0037
27				291मि	0.0005
28				293	0.0300
29				294	0.0090
30				296मि	0.0132
31				296मि	0.0181
32				548मि	0.0590
33				548मि	0.0450
34				549मि	0.0440
35				565मि	0.0320
36				565मि	0.0320

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
37	कौशाम्बी	चायल	मखरूपुर	566मि	0.0170
38				566मि	0.0265
39				566मि	0.0110
40				568	0.0041
41				570	0.0074
42				572	0.0087
43				573	0.0420
44				636	0.0390
45				637	0.0067
46				640	0.0092
47				640	0.0024
48				651	0.0320
49				678	0.0560
50				978 / 943	0.0340
51				680	0.0220
52				702	0.0030
53				778	0.0400
54				782	0.0175
55				783मि	0.0085
56				783मि	0.0038
57				784	0.0060
58				785	0.0220
59				786	0.0190
60				787	0.0160
61				788मि	0.0135
62				788मि	0.0620
63				788मि	0.0025
				<b>कुल क्षेत्रफल</b>	<b>1.2109</b>
01			पेरई	630	0.0648
02				629	0.0720

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
03	कौशाम्बी	चायल	पेरई	628	0.0880
04				627क एवं ख	0.0400
05				626	0.0114
06				625	0.0040
07				624 क से झ तक	0.0480
08				607 क से ग तक	0.0030
09				604 क से ग तक	0.0224
10				603 क से ग तक	0.0336
11				602 क से घ तक	0.0168
12				390 क से घ तक	0.0042
13				388 क से घ तक	0.0018
14				388 क से घ तक	0.0010
15				379 क से ङ तक	0.0912
16				378	0.0312
17				254 क से थ तक	0.0352
18				253 क एवं ख	0.0098
19				274 क से घ तक	0.0007
20				285 क एवं ख	0.0570
21				287	0.0036
22				288	0.0006
23				249क	0.0200
24				249 ख एवं घ	0.1000
25				250	0.0532
26				208 क से घ तक	0.0154
27				207ख	0.0112
28				206	0.0238
29				192	0.0042
30				190	0.0084
31				176 क से ङ तक	0.0140
32				100ख	0.0010

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
33	कौशाम्बी	चायल	पेरई	100क	0.0084
34				99 क से ज तक	0.0196
35				98	0.0098
36				97क, ख	0.0098
37				87	0.0070
38				86	0.0014
39				85	0.0014
40				84	0.0171
41				83 क से ङ तक	0.0100
42				82	0.0042
43				79ग	0.0023
44				79 क से ग तक	0.0217
45				70	0.0063
46				69 क से च तक	0.0090
47				177	0.0272
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>1.0467</b>
01			कोटिया	133	0.0138
02				169	0.312
03				180	0.0110
04				181	0.0090
05				182	0.0225
06				191	0.0108
07				201	0.0165
08				206	0.0153
09				218	0.0319
10				224	0.0342
11				225	0.0252
12				291	0.0450
13				293	0.0216
14				313	0.0126

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
15	कौशाम्बी	चायल	कोटिया	314	0.0225
16				315	0.0178
17				317	0.0045
18				319	0.0054
19				345	0.0189
20				122 / 1 एवं 2	0.0252
21				135	0.0589
22				163 / 1	0.0027
23				171 / 2	0.0250
24				172 मि	0.0202
25				172 मि	0.0202
26				175 मि	0.0360
27				175 मि	0.0360
28				178	0.0020
29				178 / 1	0.0143
30				178 / 2	0.0162
31				184 / 1	0.0072
32				185 / 1, 2, 3	0.0315
33				188 / 1, 2	0.0162
34				188 / 1, 2	0.0180
35				193 / 1	0.0032
36				196 / 1, 2, 3	0.0315
37				200 / 1	0.0009
38				200 / 2	0.0018
39				207 / 1	0.0135
40				207 / 2	0.0135
41				207 / 3	0.0036
42				216 / 1	0.045
43				219 / 1	0.0027
44				223 / 1	0.0045



1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
45	कौशाम्बी	चायल	कोटिया	226 / 1	0.0045
46				226 / 2	0.0045
47				227 / 3	0.0405
48				287 / 1	0.0135
49				287 / 2	0.0180
50				316 / 1	0.0090
51				316 / 2	0.0099
52				318 / 1	0.0054
53				318 / 2	0.0126
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>1.2056</b>
01			अमिरसा	51	0.0140
02				60	0.0144
03				81	0.0120
04				87	0.0023
05				90	0.0210
06				49 क एवं ख	0.0300
07				45	0.0259
08				47	0.0033
09				44	0.0038
10				43	0.0186
11				40	0.0066
12				32	0.0042
13				30	0.0073
14				15	0.0114
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>0.1748</b>

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
01	कौशाम्बी	चायल	डहिया	84	0.01126
02				96	0.0297
03				98	0.0063
04				99	0.0243
05				103	0.0171
06				117	0.0138
07				118	0.0004
08				126	0.0288
09				127	0.0126
10				128	0.0110
11				128	0.0148
12				138	0.0023
13				281	0.0112
14				282	0.0093
15				444	0.0085
16				472	0.0117
17				473	0.0073
18				474	0.0319
19				476	0.0171
20				477	0.0279
21				480	0.0180
22				481	0.0104
23				486	0.0030
24				486	0.0060
25				488	0.0180
26				489	0.0140
27				491	0.0063
28				617	0.0126
29				621	0.0086

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
30	कौशाम्बी	चायल	डहिया	625	0.0670
31				620 / 766	0.0021
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>0.4314</b>
01			जयन्तीपुर	231	0.0171
02				232	0.0140
03				234	0.0086
04				236	0.0279
05				255	0.0279
06				266	0.0536
07				267	0.0063
08				268	0.0360
09				270	0.0149
10				271	0.0225
11				272	0.0405
12				273	0.0162
13				274	0.0063
14				291	0.0243
15				292	0.0257
16				301	0.0234
17				300	0.0135
18				228	0.0117
19				218	0.0149
20				217	0.0194
21				211	0.0149
22				210	0.0086
23				198	0.0023
24				197	0.0275
25				196	0.0018
26				195	0.0405
27				185	0.0162

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
28	कौशाम्बी	चायल	जयन्तीपुर	184	0.0171
29				183	0.0320
30				167	0.0279
31				166	0.0189
32				165	0.0012
33				164	0.0234
34				136	0.0288
35				135	0.0405
36				134	0.0131
				कुल क्षेत्रफल . .	0.7394
01			तरना	318	0.0240
02				325	0.0720
03				562 / 325	0.0070
				कुल क्षेत्रफल . .	0.1030
01			तरनी	126	0.0105
02				127	0.0042
03				130	0.0090
04				131	0.0030
05				133	0.0110
06				230	0.0045
07				248	0.0126
08				249	0.0200
09				253	0.0207
10				254	0.0160
11				259	0.0260
12				260	0.0120
13				261	0.0090
14				267	0.0160
15				269	0.0140

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
16	कौशाम्बी	चायल	तरनी	271	0.0040
17				274	0.0150
18				275	0.0210
19				278	0.0320
20				319	0.0200
21				320	0.0100
22				334	0.0130
23				349	0.0122
24				361	0.0230
25				362	0.0000
26				383	0.0000
27				396	0.0310
28				398	0.0040
29				400	0.0160
30				405	0.0090
31				406	0.0100
32				407	0.0120
33				411	0.0018
34				412	0.0105
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>0.4330</b>
01			बसुहार	2471मि	0.0352
02				2124मि	0.1104
03				1012मि	0.0096
04				1012मि	0.0096
05				2827	0.0480
06				2827	0.0400
07				2827	0.0560
08				2826	0.0256
09				2785	0.0448
10				2784	0.0200

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
11	कौशाम्बी	चायल	बसुहार	2779	0.0208
12				2778	0.0192
13				2776	0.0176
14				2775	0.0336
15				2747	0.0272
16				2746	0.0304
17				2736	0.0160
18				2735	0.0352
19				2733	0.0127
20				2733	0.0153
21				2732	0.0112
22				2731	0.0112
23				2705	0.0112
24				2704	0.0320
25				2700	0.0060
26				2698	0.0256
27				2697	0.0248
28				2685	0.0180
29				2684	0.0640
30				2683	0.0640
31				2682	0.0384
32				2681	0.0528
33				2474	0.0016
34				2469	0.0019
35				2469	0.0397
36				2468	0.0248
37				2467	0.0160
38				2466	0.0200
39				2461	0.0404
40				2459	0.0027
41				2459	0.0277
42				2454	0.0200

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
43	कौशाम्बी	चायल	बसुहार	2122	0.0264
44				2121	0.0014
45				2121	0.0146
46				1012	0.0096
47				1007	0.0160
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>1.2492</b>
01			कूरा ता0 बसुहार	16मि	0.0272
02				17	0.0192
03				19	0.0480
04				20	0.0520
05				22	0.0112
06				23मि	0.0208
07				35मि	0.0176
08				35मि	0.0352
09				38मि	0.0448
10				38	0.0117
11				40	0.0385
12				44	0.0016
13				45	0.0216
14				46	0.0048
15				48	0.0032
16				51	0.0176
17				52	0.0192
18				56मि	0.0400
19				60मि	0.0056
20				61मि	0.0256
21				62	0.0120
22				63	0.0120
23				64मि	0.0192
24				71	0.0470

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
25	कौशाम्बी	चायल	कूरा ता0 बसुहार	71मि	0.0122
26				72	0.0240
27				72मि	0.0032
28				74	0.0048
29				178	0.0320
30				177	0.0080
31				176 / 233	0.0040
32				176मि	0.0320
33				163मि	0.0144
34				163	0.0144
35				162	0.0240
36				156	0.0560
37				155	0.0072
38				153	0.0200
39				153मि	0.0336
40				151	0.0164
41				127मि	0.0112
42				127मि	0.0112
43				126मि	0.0416
44				125	0.0144
45				124	0.0240
46				123	0.0160
47				122	0.0080
48				99	0.0160
49				98	0.0176
50				97	0.0336
51				95	0.0144
52				93	0.0256
53				92मि	0.0112
54				90	0.0048



1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
55	कौशाम्बी	चायल	कूरा ता0 बसुहार	76	0.0176
56				80	0.0160
57				77	0.0096
58				79	0.0048
59				81	0.0080
60				82	0.0224
61				83	0.0224
62				84	0.0432
63				78	0.0016
				कुल क्षेत्रफल . .	1.2570
01			बरई उर्फ सराय अकिल	376	0.0628
02				376	0.0076
03				383	0.0059
04				383	0.0029
05				382	0.0522
06				381	0.0280
07				381	0.0008
08				380	0.0394
09				380	0.0070
10				334	0.0064
11				333	0.0192
12				336 / 2	0.0056
13				336 / 2	0.0032
14				336 / 1	0.0088
15				332	0.0240
				कुल क्षेत्रफल . .	0.2738
01			फकीराबाद	83	0.0360
02				84	0.0192
03				85	0.0160

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
04	कौशाम्बी	चायल	फकीराबाद	86	0.0112
05				87	0.0144
06				88	0.0560
07				105	0.0160
08				114	0.0192
09				115	0.0360
10				120	0.0280
11				121	0.0160
12				121	0.0096
13				123	0.0320
14				124	0.0136
15				124	0.0128
16				224	0.0112
17				225	0.0112
18				226	0.0288
19				233	0.0144
20				234	0.0128
21				238	0.0180
22				240	0.0336
23				248	0.0112
24				249	0.0212
25				250	0.0020
26				250	0.0140
27				251	0.0446
28				253	0.0032
29				261	0.0128
30				263	0.0160
31				264	0.0144
32				265	0.0176
33				268	0.0080

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
34	कौशाम्बी	चायल	फकीराबाद	269	0.0236
35				269	0.0033
36				288	0.0180
37				294	0.0296
38				306	0.0248
39				307	0.0256
40				308	0.0160
41				309	0.0048
42				310	0.0048
43				311	0.0224
44				320	0.0252
45				348	0.0184
46				319	0.0240
47				356	0.0288
48				356	0.0224
49				365	0.0176
50				372	0.0640
51				374	0.0213
52				374	0.0214
53				375	0.0212
54				376	0.0240
55				377	0.0136
56				378	0.0980
57				380	0.0368
58				385	0.0272
59				386	0.0272
60				387	0.0024
61				549	0.0128
62				550	0.0112
63				559	0.0180
64				560	0.0064

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
65	कौशाम्बी	चायल	फकीराबाद	561	0.0032
66				561	0.0024
67				564	0.0272
68				565	0.0326
69				566	0.0200
70				573	0.0336
71				230	0.0256
72				115 / 813	0.0144
73				115 / 813	0.0304
74				348 / 1	0.0384
75				77 / 825	0.0080
76				82 / 817	0.0080
77				86 / 820	0.0200
78				87 / 820	0.0160
79				88 / 816	0.0560
80				88 / 823	0.0182
81				88 / 824	0.0560
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>1.7558</b>
01			घोसिया	761	0.0224
02				765	0.0240
03				766	0.0056
04				769	0.0128
05				780	0.0192
06				782	0.0205
07				786	0.0239
08				789	0.0005
09				815	0.0120
10				816	0.0112
11				817	0.0093
12				817	0.0480
13				818	0.0112

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
14	कौशाम्बी	चायल	घोसिया	824	0.0016
15				825	0.0200
16				866	0.0293
17				867	0.0474
18				868	0.0064
19				869	0.0216
20				870	0.0144
21				872	0.0160
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>0.3773</b>
01			चित्तापुर	145	0.0104
02				146	0.0162
03				147 / 2	0.0160
04				148 / 2	0.0136
05				161	0.0144
06				162	0.0029
07				162	0.0203
08				164	0.0208
09				166	0.0344
10				167	0.0096
11				173	0.0115
12				178	0.0104
13				179	0.0224
14				177 / 2	0.0112
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>0.2141</b>
01			हर्रायपुर	14	0.0312
02				16	0.0110
03				18	0.0168
04				19	0.0104
05				21	0.0152
06				32	0.0400

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
07	कौशाम्बी	चायल	हरायपुर	34	0.0136
08				43	0.0025
09				45	0.0032
10				46	0.0047
11				47	0.0080
12				49	0.0244
13				59	0.0304
14				60	0.0159
15				62	0.0016
16				63	0.0025
17				65	0.0065
18				66	0.0080
19				67	0.0096
20				69	0.0078
21				70	0.0640
22				93	0.0144
23				94	0.0016
24				99	0.0080
25				100	0.0040
26				101	0.0032
27				102	0.0033
28				104	0.0064
29				105	0.0160
30				106	0.0167
31				107	0.0008
32				108	0.0147
33				165	0.0080
34				168	0.0269
35				283 / 13	0.0200
36				98 / 1	0.0096
37				98 / 2	0.0096
				कुल क्षेत्रफल	0.4905
				तहसील चायल	12.0011
				का कुल क्षेत्रफल	

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
01	कौशाम्बी	मंझनपुर	रक्सराई	226मि	0.0025
02				227मि	0.0008
03				167	0.0004
04				221	0.0930
05				326ब	0.0088
06				326	0.0140
07				875	0.0026
08				1148मि	0.0060
09				167ग	0.0004
10				448अ	0.0448
11				1344	0.0120
12				141	0.0200
13				129ग	0.0006
14				167ग	0.0004
15				328	0.0030
16				331	0.0036
17				1335खमि	0.0032
18				173	0.0480
19				235	0.0240
20				213ग	0.0008
21				220ग	0.0179
22				129ख	0.0006
23				1038क	0.0007
24				129क	0.0006
25				225	0.1800
26				1249	0.0014
27				1244	0.0216
28				167क	0.0004
29				224क	0.0022
30				856	0.0099

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
31	कौशाम्बी	मंझनपुर	रक्सराई	857	0.0024
32				175मि	0.0024
33				138	0.0096
34				171	0.0240
35				1148मि	0.0065
36				873	0.0336
37				1049	0.0352
38				129घ	0.0012
39				214	0.0160
40				170	0.0096
41				1332	0.0168
42				856मि	0.0099
43				226मि	0.0025
44				227मि	0.0080
45				175मि	0.0040
46				1345	0.0152
47				219	0.1150
48				1152	0.0017
49				215	0.0192
50				326ख	0.0140
51				1153	0.0055
52				161	0.0026
53				224ख	0.0045
54				220क	0.0251
55				213क	0.0016
56				129क	0.0006
57				1195	0.0192
58				1040	0.0042
59				234	0.0064
60				327ख	0.0156



1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
61	कौशाम्बी	मंझनपुर	रक्सराई	216	0.0424
62				176	0.0196
63				129ड.	0.0004
64				167ड.	0.0003
65				228	0.0048
66				1246	0.0036
67				213 / 1438	0.0040
68				847	0.0384
69				1347	0.0030
70				140	0.0006
71				129	0.0002
72				167ज	0.0001
73				169	0.0208
74				326	0.0140
75				132क	0.0016
76				163	0.0072
77				213ग	0.0008
78				220क	0.0090
79				1146क	0.0176
80				1147	0.0480
81				155अ	0.0128
82				1337	0.0168
83				1078	0.0055
84				867	0.0012
85				1142	0.0232
86				1038ग	0.0014
87				1247	0.0156
88				1041	0.0200
89				1248अ	0.0088
90				1290	0.0256
91				1348	0.0088
कुल क्षेत्रफल . .					1.3324

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
01	कौशाम्बी	मंझनपुर	जाटी	1450	0.0026
02				1706	0.0025
03				1642	0.0026
04				1365	0.0005
05				1316	0.0003
06				1441	0.0614
07				1442	0.0134
08				1443	0.0384
09				1449	0.0077
10				1287	0.0009
11				1704 / 174व1701	0.0000
12				1268	0.014
13				1658	0.0288
14				1673	0.0077
15				1669	0.0019
16				1704	0.0072
17				1661	0.0058
18				1638	0.0173
19				1266	0.0038
20				1653	0.0096
21				1641	0.0011
22				1659	0.0123
23				1671	0.0115
24				1310	0.0134
25				1708मि	0.0027
26				1708मि	0.0146
27				1708मि	0.0146
28				1694	0.0105
29				1288	0.0184
30				1267	0.0250

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
31	कौशाम्बी	मंझनपुर	जाठी	1468 / 174	0.0091
32				1639	0.0096
33				1470	0.0019
34				1677	0.0077
35				1452	0.0365
36				1319	0.0096
37				1307	0.0134
38				1306	0.0134
39				1304	0.0077
40				1320	0.0365
41				1303	0.0347
42				1643	0.0104
43				1670	0.0091
44				1676	0.0035
45				1695	0.096
46				1696	0.0067
47				1698	0.0058
48				1697	0.0058
49				1692	0.0576
50				1599	0.0096
51				1656	0.0614
52				1317	0.0096
53				1305	0.0125
54				1314	0.0077
55				1714	0.0240
56				1313	0.0211
57				1651	0.0317
58				1308ख	0.0000
59				1309ख	0.0000
60				1469	0.0317
61				1700मि	0.0614
62				1244मि	0.0000
कुल क्षेत्रफल . .					0.9962

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
01	कौशाम्बी	मंझनपुर	नरेंद्र बारा	03	0.0180
02				04	0.0186
03				07	0.0108
04				12	0.0156
05				25	0.0066
06				26	0.0168
07				32	0.0252
08				33	0.0018
09				2ख	0.0090
10				24ख	0.0120
11				2मि	0.0090
12				9क	0.0120
कुल क्षेत्रफल . .					<b>0.1554</b>
01			बारा	172	0.0104
02				165मि	0.0280
03				174	0.0098
04				177	0.0067
05				178	0.0096
06				186	0.0225
07				187	0.0036
08				192	0.0064
09				148	0.0009
10				196	0.0512
11				232मि	0.0152
12				232मि	0.0152
13				233	0.0088
14				236	0.0042
15				238	0.0036
16				126	0.0036
17				128 / 2	0.0048

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
18	कौशाम्बी	मंझनपुर	बारा	131	0.0072
19				132	0.0074
20				133	0.0004
21				135	0.0315
22				136	0.0014
23				147	0.0032
24				155	0.0585
कुल क्षेत्रफल . .					<b>0.3141</b>
01			मढी	20	0.0454
02				21	0.0000
03				23	0.0197
04				40	0.0067
05				42	0.0244
06				46	0.0050
07				235	0.0302
08				24मि	0.0017
09				24मि	0.0000
10				24मि	0.0006
11				45 / 1	0.0007
कुल क्षेत्रफल . .					<b>0.1344</b>
01	कौशाम्बी	मंझनपुर	बैगवां फतेहपुर	165मि	0.0131
02				165मि	0.0000
03				165मि	0.0021
04				163	0.00210
05				156	0.0907
06				149	0.0521
07				148	0.0055
08				142	0.0091
09				140	0.0127
10				141	0.0185

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
11	कौशाम्बी	मंझनपुर	बैगवां फतेहपुर	77	0.0076
12				138	0.0302
13				137	0.0588
14				119	0.0063
15				118	0.0109
16				161	0.0193
				<b>कुल क्षेत्रफल . .</b>	<b>0.3390</b>
01			कोसमझनाम उपरहार	1396 / 2	0.0078
02				1397 / 1	0.0138
03				1406	0.0039
04				1407	0.0018
05				1407	0.0269
06				1421 / 1	0.0069
07				1422 / 1,1422मि	0.0386
08				1429	0.0042
09				1432मि	0.0096
10				1030मि	0.0020
11				1434	0.0328
12				1435 / 1	0.0230
13				1437	0.0320
14				1595मि	0.0297
15				1596मि	0.0389
16				1600मि	0.0297
17				1601	0.0098
18				1670	0.0267
19				1669	0.0087
20				1073 / 1,2,3	0.1153
21				1071	0.0450
22				1069मि	0.0294
23				1067	0.0149

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
24	कौशाम्बी	मंझनपुर	कोसमझनाम उपरहार	1066	0.0257
25				1065मि	0.0297
26				1037	0.1021
27				1035	0.0082
28				1031	0.0420
29				1028	0.0990
30				995	0.0053
31				1002	0.0509
32				1007	0.0989
33				1009 / 1	0.1020
34				1348 / 1	0.0188
35				1347मि	0.0043
36				1299मि	0.0772
37				1346 / 1	0.0009
38				1346 / 2	0.0027
39				1315मि	0.0025
40				1311मि	0.0019
41				1310	0.0063
42				1301	0.0043
43				1297 / 2	0.0034
44				1248	0.0038
45				1247	0.0112
46				1244 / 1	0.0312
47				1243	0.0272
48				1240 / 1	0.0144
49				1238 / 2	0.0184
50				1236 / 2मि	0.0224
51				1177 / 2	0.0132
52				1175 / 1,2	0.0231

1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
53	कौशाम्बी	मंझनपुर	कोसमझनाम उपरहार	1173/2	0.0052
54				1172/2	0.0052
55				1171/2	0.0000
56				1606/2	0.0349
57				1169	0.0048
58				1602	0.0000
59				1604	0.0030
60				1074	0.0293
61				1042	0.0018
62				1036	0.0070
63				1035मि	0.0585
64				1030	0.0435
65				992	0.0240
66				975मि	0.0000
67				976मि	0.0000
68				977	0.0083
69				978	0.0275
70				1008/2	0.0516
71				1010मि	0.1272
72				930मि	0.1638
73				997मि	0.1364
74				998	0.0627
75				1001	0.0968
कुल क्षेत्रफल . .					2.2939
तहसील चायल, मंझनपुर					5.5654
का कुल क्षेत्रफल . .					
महायोग कुल क्षेत्रफल . .					17.5665



- 1 प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ का संक्षिप्त विवरण फोरलेन मार्ग के निर्माण से जनपद कौशाम्बी में स्थित बौद्ध स्थल/पुरातात्विक एवं पर्यटक स्थल पर आवागमन में सुविधा होगी तथा स्थानीय निवासियों को प्रयागराज मुख्यालय एवं एयर पोर्ट पर आने-जाने में सुविधा होगी।
- 2 परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल
  - 1 ग्राम कसेंदा (0.1470 हे0)
  - 2 ग्राम फतेहपुर शहाबपुर (0.8916 हे0)
  - 3 ग्राम मखरूपुर (1.2109 हे0)
  - 4 ग्राम पेरई (1.0467 हे0)
  - 5 ग्राम कोटिया (1.2056 हे0)
  - 6 ग्राम अमिरसा (0.1748 हे0)
  - 7 ग्राम डहिया (0.4314 हे0)
  - 8 ग्राम जयन्तीपुर (0.7394 हे0)
  - 9 ग्राम तरना (0.1030 हे0)
  - 10 ग्राम तरनी (0.4330 हे0)
  - 11 ग्राम बसुहार (1.2492 हे0)
  - 12 ग्राम कूरा ता0 बसुहार (1.2570 हे0)
  - 13 ग्राम बरई उर्फ सरायअकिल (0.2738 हे0)
  - 14 ग्राम फकीराबाद (1.7558 हे0)
  - 15 ग्राम घोसिया (0.3773 हे0)
  - 16 ग्राम चित्तापुर (0.2141 हे0)
  - 17 ग्राम हर्रायपुर (0.4905 हे0)
  - 18 ग्राम रक्सराई (1.3324 हे0)
  - 19 ग्राम जाठी (0.9962 हे0)
  - 20 ग्राम नरेन्द्रबारा (0.1554 हे0)
  - 21 ग्राम बारा (0.3141 हे0)
  - 22 ग्राम मढ़ी (0.1344 हे0)
  - 23 ग्राम बैगवां फतेहपुर (0.3390 हे0)
  - 24 ग्राम कोसमइनाम (2.2939 हे0)
- 3 क्या ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामी की सहमति की आवश्यकता है? हाँ
- 4 सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथि प्रक्रियाधीन है।

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) प्रयागराज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मधुसूदन हुल्ली,  
समुचित सरकार/कलेक्टर,  
कौशाम्बी।

**कार्यालय, जिलाधिकारी गोण्डा****अधिसूचना**

30 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 536/आठ-वि०भू०अ०अ०/अधिसूचना/गोण्डा/2024-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग गोण्डा व परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई बाराबंकी उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गोण्डा-बाराबंकी रेल सेक्शन क्रॉसिंग 263 (महादेवा क्रॉसिंग) पर निर्माणाधीन 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जनपद-गोण्डा, परगना व तहसील-गोण्डा, ग्राम-जानकीनगर ग्रामीण में स्थित गाटा संख्या 831/0.0045 हे० व गाटा संख्या-832/0.0135 हे० कुल रकबा 0.0180 हे० भूमि के सम्बन्ध में भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-198/आठ-वि०भू०अ०अ०/अधिसूचना/गोण्डा/2024 दिनांक 03 अगस्त, 2024 को निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 14 सितम्बर, 2024 को शासकीय गजट में प्रकाशित की गई थी।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर गोण्डा द्वारा भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14 नवम्बर, 2024 पर विचारोपरान्त धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला-गोण्डा, परगना व तहसील-गोण्डा की सम्बन्धित ग्राम की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु क्षेत्र के रूप में चिन्हित की गई है।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव का घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग गोण्डा व परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई बाराबंकी उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन यथा गोण्डा-बाराबंकी रेल सेक्शन क्रॉसिंग 263 (महादेवा क्रॉसिंग) पर निर्माणाधीन 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई हितबद्ध व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रही है।

**अनुसूची "क"**

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित क्षेत्रफल हे०
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गोण्डा	गोण्डा	गोण्डा	जानकीनगर ग्रामीण	831	0.0045
				832	0.0135
				योग..	<b>0.0180</b>

## अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
गोण्डा	गोण्डा	गोण्डा	जानकीनगर ग्रामीण	शून्य	शून्य

हेक्टेयर

टिप्पणी— अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट  
जिलाधिकारी,  
गोण्डा।

## Office District Magistrate Gonda

Notification

November 30, 2024

**No. 536/VIII-S.L.A.O./ Notification/Gonda /2024**—Executive Engineer, Construction Block-1, Public Works Department Gonda and Project Manager, Bridge Construction Unit Barabanki, Uttar Pradesh State Bridge Corporation Ltd., for the construction of 02 lane overbridge under construction at Gonda-Barabanki Railway Section Crossing 263 (Mahadeva Crossing) for public purpose required by the Executive Engineer, Construction Block-1, Public Works Department Gonda and Project Manager, Bridge Construction Unit Barabanki, Uttar Pradesh State Bridge Corporation Ltd., in respect of Gata No. 831/0.0045 hectare and Gata No. 832/0.0135 hectare, total area 0.0180 hectare of land situated in District-Gonda, Pargana and Tehsil-Gonda, Village-Jankinagar Gramin, under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which was issued in preliminary notification number, 198/VIII-S.L.A.O/Notification/Gonda/2024 dated 03.08.2024 was issued and finally published in the Government Gazette on 14.09.2024. .

In compliance with the provisions of subsection (2) of section-15 of the Act, after considering the report dated 14.11.2024 submitted by the Collector Gonda for land acquisition purpose, the Governor directs to declare under sub-section (1) of section-19 that he is satisfied that the area of land described in Schedule "A" is required for public purpose and zero hectare land of the concerned village of District-Gonda, Pargana and Tehsil-Gonda mentioned in Schedule "B" has been identified as an area for rehabilitation and resettlement of displaced families.

The Governor further directs that there is no need to publish the summary of the rehabilitation and resettlement plan along with the publication of a declaration to this effect under subsection (2) of section 19 of the Act. No interested person is being displaced from the land proposed for the construction of a 2-lane flyover under construction at Gonda-Barabanki Railway Section Crossing 263 (Mahadeva Crossing) by the Executive Engineer, Construction Block-1, Public Works Department Gonda and Project Manager, Bridge Construction Unit Barabanki U.P. State Bridge Corporation Ltd. for public purpose.

**SCHEDULE "A"**

(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Gonda	Gonda	Gonda	Jankinagar Gramin	831	0.0045
Do.	Do.	Do.	Do.	832	0.0135
<b>Total ..</b>					<b>0.0180</b>

**SCHEDULE "B"**

(Marked land in the area of rehabilitation and resettlement for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Gonda	Gonda	Gonda	Jankinagar Gramin	00	00

(Sd.) Illegible,  
Collector,  
Gonda.

**जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति****कार्यालय, जिलाधिकारी/कलेक्टर बलरामपुर**

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 517/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/गोण्डा/बलरामपुर/2024-भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि श्रावस्ती हवाई अड्डा विस्तारीकरण के निर्माण हेतु जनपद-बलरामपुर, तहसील व परगना बलरामपुर, ग्राम बगाही में कुल 0.24691 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2- भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अध्याय-2, धारा-9 में निहित प्रविधानों के अनुसार जहाँ धारा-40 के अधीन आत्यंतिकता उपबन्धों का अवलम्बन लेते हुए भूमि के अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है, वहाँ समुचित सरकार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकती है।

जनपद बलरामपुर में श्रावस्ती हवाई अड्डा विस्तारीकरण का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है तथा अर्जन प्रभावित भूमि न्यूनतम भूमि है। परियोजना पूर्ण होने के अन्तिम चरण में होने के कारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (भारत-नेपाल) के समीप होने के कारण सामरिक हितों के एवं बौद्ध परिपथ/बौद्ध स्थलीय होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को मजबूत करने के दृष्टिगत भू-अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-40 के उप धारा-5 के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही किया जाना नियमानुसार है। जिसके अनुसार किसी अतिरिक्त प्रतिकर का सन्दाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3— भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

4— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित भूमि का सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहमति देते हैं।

### ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बलरामपुर	बलरामपुर	बलरामपुर	बगाही	127	0.0223
				140	0.0115
				317	0.0262
				321	0.10196
				335	0.0133
				337	0.0085
				411	0.0186
				535	0.0020
				369अ	0.00125
				369कमि	0.0093
				369ख	0.00160
				369मि	0.0160
				<b>योग.</b>	<b>0.24691</b>

5— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर,  
बलरामपुर।

**Office District Magistrate/Collector Balrampur**

## Notification

November 25, 2024

**No. 517/VIII-S.L.A.O./Notification/Gonda/Balrampur/2024**—Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, herein after referred to as the said Act, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of appropriate government) is satisfied that a total of 0.24691 hectare of land is required For the Construction of Shravasti Airport Project in the Village-Bagahi, Pargana-Balrampur, Tehsil-Balrampur, District- Balrampur for public purpose under the said project namely Shravasti Airport Project.

2. According to the provisions contained in Chapter-2, Section-9 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, where there is a proposal to acquire land by invoking the exigency provisions under Section-40, the appropriate government may give exemption from conducting a social impact assessment study.

The construction work of Shravasti Airport expansion in Balrampur District is in the final stage and the land affected by acquisition is minimum land. Since the project is in the final stage of completion, and is near the international border (India-Nepal) in view of strategic interests, and being a Buddhist circuit/Buddhist place, in view of strengthening International relations, it is as per rules to conduct land acquisition proceedings under Clause-2 of Sub-section-5 of Section-40 of the Land Acquisition Act, 2013. according to which no additional compensation would be required to be paid.

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

**SCHEDULE**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Balrampur	Balrampur	Balrampur	Bagahi	127	0.0223
				140	0.0115
				317	0.0262
				321	0.10196
				335	0.0133
				337	0.0085
				411	0.0186
				535	0.0020
				369अ	0.00125

1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Balrampur	Balrampur	Balrampur	Bagahi	369कमि	0.0093
				369ख	0.00160
				369मि	0.0160
<b>Total . .</b>					<b>0.24691</b>

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of the acquisition to takes necessary steps enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil in to the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section-12 of the Act.

6. Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection of land in the locality in writing to the Collector.

7. Under Section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or any transaction of the land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

**NOTE:** A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) Illegible,  
Collector,  
Balrampur.

**जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति**

**कार्यालय, जिलाधिकारी महाराजगंज**

**अधिसूचना**

23 दिसम्बर, 2024 ई०

संख्या: 2059/आठ-उप भू०अ०अ०/सं०सं०/महाराजगंज-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि सार्वजनिक प्रयोजन इण्टीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली हेतु

जनपद-महराजगंज, तहसील-नौतनवां, परगना-विनायकपुर, ग्राम-आराजी सरकार उर्फ केवटलिया व जुगौली में कुल 0.150 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2— इण्टीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्लीयरेन्स के सम्बन्ध में पत्र दिनांक—21 नवम्बर, 2024 प्रस्तुत किया गया है। धारा-6(2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है।

3— भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

4— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती हैं।

#### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	अर्जित किये जाने वाला क्षे० (हे० में)
महराजगंज	नौतनवां	विनायकपुर	आराजी सरकार उर्फ केवटलिया	519मि,330 / 988	0.052
			जुगौली	13,7	0.098
योग .					<b>0.150</b>

5—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए इण्टीग्रेटेड चेक पोस्ट सोनौली निर्माण हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए कलेक्टर के प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7—अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी**—:उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,  
जिलाधिकारी,  
महराजगंज।



**Office District Magistrate, Mahrajganj****NOTIFICATION***December 23, 2024*

**No. 2059/ VIII / Dy. L.A.O./ Mahrajganj**--Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate government) is satisfied that a total of 0.150 hectare of land is required in the Village-Araji Sarkar *Urf* Kewtaliya and Jugauli, Pargana-Vinayakpur, Tehsil-Nautanawa, District-Mahrajganj, is required for Integrated Check Post Sonauli.

2. Letter dated 21-11-2024 has been presented regarding environmental clearance of Intrigrated Check Post Sonauli proposal for acquisition of land based upon the provisions of section-6.

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

**Schedule**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
					<i>Hectare</i>
Mahrajganj	Nautanawa	Vinayakpur	Araji Sarkar <i>Urf</i> Kewtaliya	519मि, 330 / 988	0.052
			Jugauli	13, 7	0.098
			<b>Total. .</b>		<b>0.150</b>

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to Integrated Check Post Sonauli, take levels of any land, the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

7. Under Section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

**NOTE-** A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) Illegible,  
Collector,  
Maharajganj.



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 दिसम्बर, 2024 ई० (पौष 07, 1946 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश  
कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

10 दिसम्बर, 2024 ई०

विज्ञप्ति

सं० मा०शि०प०/परिषद्-9/805-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या-1490/पन्द्रह-7-2024-1(25)2018 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् विनियमों के अध्याय-दो के विनियम-1 के परिशिष्ट "क" में निम्नवत् संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

अध्याय-दो विनियम-1 के परिशिष्ट 'क'

क्र० सं०	वर्तमान विनियम	प्रस्तावित संशोधन (अध्याय-दो के विनियम-1 के परिशिष्ट-क में जोड़े जाने हेतु)
1	2	3
	क्रम 1 से 57	क्रम 1 से 57 यथावत्
58	आपदा प्रबंधन (कक्षा-9, 10)	(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी धारा में स्नातक उपाधि। (2) शिक्षा स्नातक (बी०एड०) (3) आपदा प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/उपाधि

1	2	3
59	प्लम्बर (कक्षा-9, 10)	इण्टरमीडिएट तथा आई0टी0आई0 प्लम्बर ट्रेड से अथवा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अथवा डिप्लोमा इन मकैनिकल इंजीनियरिंग अथवा डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
60	इलेक्ट्रीशियन (कक्षा-9, 10)	इण्टरमीडिएट तथा इलेक्ट्रीशियन से आई0टी0आई0 अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
61	सोलर सिस्टम रिपेयर (कक्षा-9, 10)	डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/मकैनिकल इंजीनियरिंग तथा सोलर प्रणाली में किसी मान्य संस्था से प्रशिक्षण।
62	मोबाइल रिपेयर (कक्षा-9, 10)	इण्टरमीडिएट तथा आई0टी0आई0 रेडियो एवं टी0वी0 मकैनिकल कोर्स तथा 06 माह का मोबाइल रिपेयरिंग सर्टीफिकेट कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से।

भगवती सिंह,  
सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 दिसम्बर, 2024 ई० (पौष 07, 1946 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

### उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

#### भूमि अर्जन अनुभाग

दिनांक 27 नवम्बर, 2024

#### अधिसूचना

सं०-1320-एल०ए०सी०/एच०क्यू०-३०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (अधिनियम सं०-1 सन् 1966) धारा-32(1) के अन्तर्गत एतद्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि ३०प्र० राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिनियम की धारा-31(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए "लिसाड़ी योजना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-12, मेरठ" योजना का क्षेत्रफल 05.3010हे० भूमि जो उक्त अधिनियम की धारा-28 के अधीन ३०प्र० गजट दिनांक 24 फरवरी, 2018 के भाग-8 के पृष्ठ 50-हि०ग०-22 पर हुआ था और उक्त योजना हेतु परिषद अधिनियम की धारा-31(1) की स्वीकृति मा० परिषद की 268वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के मद सं०-268/9 पर प्रदान की गयी थी। उक्त योजना में समाविष्ट ग्राम-लिसाड़ी परगना-तहसील जिला-मेरठ का ३०प्र० राज्य सरकार के आदेश सं०-1555/आठ-2-24-04एच०बी०/2024 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 के अधीन लिसाड़ी योजना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-12, मेरठ के क्षेत्रफल 05.3010हे० का परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31(2) की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

उक्त योजनान्तर्गत ग्राम-लिसाड़ी परगना-तहसील जिला-मेरठ की अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०-	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	धारा-28 में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)	अर्जनमुक्त क्षेत्रफल (हे० में)	धारा-32 के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे० में)
1.	412	0.2530	0.2530	0.000	0.2530
2.	413	0.1390	0.1390	0.000	0.1390
3.	414	0.0630	0.0630	0.000	0.0630
4.	415	0.1010	0.1010	0.000	0.1010
5.	416	2.3150	2.3150	0.000	2.3150
6.	417	0.4050	0.4050	0.000	0.4050
7.	418	0.4810	0.4810	0.000	0.4810
8.	419	0.2910	0.2910	0.000	0.2910
9.	420	0.4180	0.4180	0.000	0.4180
10.	435	0.5440	0.5440	0.000	0.5440
11.	439/2	0.1010	0.1010	0.000	0.1010
12.	440	0.1900	0.1900	0.000	0.1900
	कुल योग	5.3010	5.3010	0.000	5.3010

डा० बलकार सिंह,  
आवास आयुक्त

### NOTIFICATION

No-1320-L.A.C./H.Q-Under Section-32(1) of U.P.Housing and Development Board Act-1965 (U.P.Act-1,1966), it is hereby announced that U.P.State Government exercised in the power conferred by section-31(2) of the said Act for the scheme "Lisadi Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojna No.-12, Meerut" (which was published for the first time on U.P. Gazette dated 24 February, 2018 under sec-28 of the said Act) videletter No.-1555/8-2-24-04H.B./2024 Housing and urban planning sec-2, Lucknow dated 24 October, 2024, has given sanction under section 31(2) of the said Act for the revenue Village-Lisadi, Meerut

Under the said scheme, the details of the land to be acquired in Village- Lisadi, Meerut are as follows:-

Sl. No.	Khasra No.	Total Area (in Hec.)	Total acquired land under Sec-28 (in Hec.)	Land adjusted in scheme of the Khasra No. by Niyojan Samiti (in Hec.)	Total land of Khasra No. being acquired under Section-32 (in Hec)
1.	412	0.2530	0.2530	0.000	0.2530
2.	413	0.1390	0.1390	0.000	0.1390
3.	414	0.0630	0.0630	0.000	0.0630
4.	415	0.1010	0.1010	0.000	0.1010
5.	416	2.3150	2.3150	0.000	2.3150
6.	417	0.4050	0.4050	0.000	0.4050
7.	418	0.4810	0.4810	0.000	0.4810
8.	419	0.2910	0.2910	0.000	0.2910
9.	420	0.4180	0.4180	0.000	0.4180
10.	435	0.5440	0.5440	0.000	0.5440
11.	439/2	0.1010	0.1010	0.000	0.1010
12.	440	0.1900	0.1900	0.000	0.1900
	<b>Total</b>	<b>5.3010</b>	<b>5.3010</b>	<b>0.000</b>	<b>5.3010</b>

**Dr. Balkar Singh**

Housing Commissioner

## कार्यालय, नगर पंचायत कोरांव-प्रयागराज

14 नवम्बर, 2024 ई0

सं० 777/न०प०कोरांव/2024-25—नगर पंचायत कोरांव ने अपने सीमान्तगत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2024 बनायी है। उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के पत्र संख्या-न० वि० स० बो०/डी०-90/2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 के द्वारा जिलाधिकारी जनपद-प्रयागराज के पत्र संख्या-4795 दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के अनुपालन में कार्यालय नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज के बोर्ड की बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2023 में प्रस्ताव संख्या-05 पर बोर्ड द्वारा उक्त शासनादेशों के क्रम में नगर के विकास हेतु निकाय की आय पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार अपने कार्यालय के पत्र संख्या-433 दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को दैनिक समाचार-पत्र “आज” के माध्यम से 35 दिवस के भीतर आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किया गया था जिसके सापेक्ष 35 दिवस में कार्यालय नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज में कुल 19 आपत्तियां प्राप्त हुयी थी जिनका निस्तारण नगर पंचायत कोरांव, के मा० बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। अतः प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण की दशा में प्रकाशित की गयी उपविधि में बिना किसी अन्य संशोधन के इसी रूप में राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

## उपविधि

### संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि “विविधकर” (षुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पंचायत कोरांव जनपद-प्रयागराज की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत में प्रभावी होगी।

### परिभाषायें—

- (1) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज के अध्यक्ष से है।
- (2) “अधिषासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज के अधिषासी अधिकारी से है।
- (3) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत कोरांव, जनपद-प्रयागराज से है।
- (4) “नगर पंचायत की सीमाओं” से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है—

क्र०सं०	मद का नाम	विवरण	दर प्रतिवर्ष
1	2	3	4
			रु०—
1	कार्यालय सुविधा शुल्क	भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र	5,000.00
2		मकान नम्बर हेतु	10,000.00
3		मकान खसरा	2,000.00
4		वरासत	1,000.00
5	होटल-रेस्टोरेन्ट	होटल लाजिंग हाउस तथा गेस्ट हाउस	5,000.00
6	सरकारी संस्थान	सरकारी संस्थान/कार्यालय आदि (हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस को छोड़कर)	10,000.00
7	नर्सिंगहोम	नर्सिंग होम (20 बेड से कम)	7,000.00
8		नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक)	10,000.00
9		पैथालॉजी सेन्टर	2,000.00
10		एक्सरे क्लीनिक	2,000.00
11		डेंटल क्लीनिक	2,000.00
12		मेडिकल स्टोर (फुटकर विक्रेता)	1,000.00
13		मेडिकल स्टोर (थोक/फुटकर विक्रेता)	2,000.00
14	परिवहन	ट्रैक्टर ट्राली वर्कशॉप	2,000.00
15	अन्य व्यवसाय	फाइनेंस कम्पनी, चिट फण्ड	10,000.00
16		इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	5,000.00



1	2	3	4
			रु0—
17	अन्य व्यवसाय	भारी/हल्के वाहन डीलर	15,000.00
18		दोपहिया/तीन पहिया वाहन डीलर	5,000.00
19		मोटर साईकिल एजेन्सी शोरूम	10,000.00
20		इलेक्ट्रिक वाहन एजेन्सी शोरूम	3,000.00
21		साईकिल मरम्मत की दुकान	300.00
22		साईकिल पार्ट्स व साईकिल विक्रेता	700.00
23		स्कूटर व तीन पहिया रिपेयरिंग शॉप	700.00
24		स्कूटर, मोटरसाईकिल रिपेयर शॉप	700.00
25		प्राइवेट स्कूल	3,000.00
26		कोचिंग सेन्टर	2,000.00
27		बार	6,000.00
28		बियर शॉप	10,000.00
29		आईस फैक्ट्री	2,000.00
30		बीड़ी कारखाना	3,000.00
31		रजिस्टर्ड बिल्डर्स	6,000.00
32		देशी शराब प्रति दूकान	15,000.00
33		विदेशी शराब प्रति दूकान	10,000.00
34		बकरा मांस की दूकान	1,200.00
35		मछली/मुर्गा की दुकान	1,200.00
36		गन्ना, कोल्हू, आरा मषीन, धर्मकाटा	1,200.00
37		कोल्ड्रिंक/ठंडा पेय विक्रेता	3,000.00
38		टेलिकॉम सर्विसेज कार्यालय	5,000.00
39		आटा चक्की, स्पेलर, धान मषीन आदि	1,000.00
40		जूता चप्पल की बड़ी दूकान	1,000.00
41		जूता चप्पल की छोटी दूकान	500.00
42	पेट्रोलियम	पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प थोक विक्रेता	10,000.00
43	विक्रेता एवं कारिगर	बिजली का सामान थोक विक्रेता	1,500.00
44		बिजली का सामान फुटकर विक्रेता	1,000.00
45		कपड़ा व्यापारी थोक व रेडिमेड	3,000.00
46		कपड़ा व्यापारी फुटकर व रेडिमेड	1,000.00

1	2	3	4
			रु0—
47		बेकरी शाप/केक की दुकान	1,000.00
48		हेयर कटिंग सैलून छोटा एक कारिगर	250.00
49		हेयर कटिंग सैलून बड़ा एक से अधिक कारिगर	500.00
50		कुकिंग गैस सिलिण्डर, फिलिंग फुटकर विक्रेता	500.00
51		जनरल मर्चेन्ट थोक	2,000.00
52		जनरल मर्चेन्ट फुटकर	500.00
53		टेलरिंग हाउस	500.00
54		कोयला फुटकर विक्रेता	500.00
55		सर्राफा व्यवसायीक (छोटी दूकान)	3,000.00
56		सर्राफा व्यवसायीक (बड़ी दूकान)	6,000.00
57		डेयरी फार्म	1,000.00
58		केबल टी0वी0/नेट	1,000.00
59		अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़ थोक विक्रेता	1,000.00
60	विक्रेता एवं कारिगर	टेन्ट हाउस	2,000.00
61		पान की दूकान खोखा	250.00
62		पान की दूकान पक्की	500.00
63		चाय की दूकान खोखा	250.00
64		मीठा, चाय की दूकान पक्की बड़ी	500.00
65		किताबों के फुटकर विक्रेता	1,000.00
66		लकड़ी के फुटकर विक्रेता	1,000.00
67		रेडियो मैकेनिक	500.00
68		टी0वी0 इलेक्ट्रॉनिक की दूकान	1,000.00
69		मिठाई की दूकान छोटी	500.00
70		मिठाई की दूकान बड़ी	2,500.00
71		सब्जी फल विक्रेता फुटकर	300.00
72		सब्जी फल विक्रेता थोक	500.00
73		किराना थोक विक्रेता	1,000.00
74		किराना फुटकर विक्रेता	500.00
75		मसाले फुटकर विक्रेता	1,000.00
76		मसाले थोक विक्रेता	2,000.00

1	2	3	4
			रु0—
77	फर्निचर विक्रेता		2,500.00
78	क्राकरी थोक विक्रेता		2,000.00
79	क्राकरी फुटकर विक्रेता		1,000.00
80	लाउड स्पीकर किराये पर (पांच सेट तक)/डी0जे0		1,000.00
81	खराद मशीन लकड़ी		2,000.00
82	आभूषण मरम्मत कर्ता		500.00
83	ट्रांसफॉर्मर बिजली (प्रति ट्रांसफॉर्मर)		5,000.00
84	विद्युत पोल 440 वोल्ट लोहिया/सीमेन्ट (प्रति पोल)		200.00
85	विद्युत पोल 11,000 वोल्ट लोहिया/सीमेन्ट (प्रति पोल)		500.00
86	पिन्टिंग प्रेस		1,000.00
87	दोना पत्तल कारखाना		1,000.00
88	व्यावसायिक मेला (प्रति मेला)		10,000.00

नगर पंचायत कोरांव जनपद-प्रयागराज द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर” (षुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत कोरांव जनपद-प्रयागराज बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

#### दण्ड

यू0पी0 म्यूनिसिपैलटीज एक्ट-1916 की धारा-299 उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश किया जाता है कि, यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त उपनियमों में किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करायेगा या प्रोत्साहन देगा तो दोषी व्यक्ति पर अर्थ दण्ड दिया जा सकता है, जो इस नियमावली में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुने से दस गुना तक जुर्माना हो सकता है। प्रथम दृष्ट्या दोष सिद्ध हो जाने के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो रु0 25.00 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न जमा करने पर तीन माह तक के लिये कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

अमित कुमार,  
अधिषासी अधिकारी,  
नगर पंचायत कोरांव,  
प्रयागराज।

#### कार्यालय, नगर पंचायत कौठ, जनपद-मुरादाबाद

06 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 276/न0पं0कौठ/24 दिनांक 18 जुलाई, 2024 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कौठ जनपद-मुरादाबाद द्वारा नगर पंचायत कौठ सीमा के अन्तर्गत भवन मानचित्र/भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2023 बनाये जाने हेतु निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 22 जून, 2023 में प्रस्ताव संख्या-19 पारित किया गया था तथा उपविधि का

प्रकाशन धारा-301 के अन्तर्गत दो समाचार-पत्रों "अमर-उजाला" व "शाह-टाइम्स" में दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के अंक में कराकर 30 दिवस के अन्दर सर्वसाधारण/किसी व्यक्ति/समूह से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। निर्धारित समय में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में पुनः निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 30 जून, 2024 में प्रस्ताव संख्या-05E के द्वारा अनुमोदन उपरान्त प्रस्तावित उपरोक्त उपविधि का अन्तिम प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" व "शाह टाइम्स" में दिनांक 20 जुलाई, 2024 के अंक में कराया गया। निम्नवत् भवन मानचित्र/भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2023 को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

### **भवन मानचित्र/भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि, 2023**

नगर पंचायत कौठ, जनपद-मुरादाबाद के द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा-298(1) की सूची 1 के शीर्षक "ए"/"क" (भवन) सपठित धारा-294 के अधीन निर्मित भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धित निम्नवर्णित उपविधि को नगर पंचायत कौठ के द्वारा धारा-298 (2) नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत लागू किया जाता है, जोकि गजट में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी/प्रभावी होगी।

### **उपविधि**

1— (1) यह उपविधि नगर पंचायत कौठ, जनपद-मुरादाबाद में "भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत कौठ क्षेत्र में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि गजट में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2— **परिभाषायेँ—** विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(1) "भवन" का तात्पर्य किसी मकान, उपगृह, अस्तवज, छादक (शेड) झोंपड़ी या अन्य बाड़ा या ढाचे से है, चाहें वह पक्की ईंट लकड़ी मिट्टी, धातु या चाहें किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहें उसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिये अथवा अन्यथा किया गया हो, और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा चबूतरा मकान की कुर्सी, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न ना हो की चारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या अन्य कोई ऐसी परिवहनीय अस्थायी आश्रय स्थल नहीं है।

(2) "अधिनियम" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(3) "उपविधि" का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है।

(4) "नक्शा नवीस/मानचित्रकार" का अभिप्राय नगर पंचायत कौठ के अनुज्ञा/लाईसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है।

(5) "व्यवसायिक निर्माण" से तात्पर्य उस निर्माण से है, जो कि व्यापार, उद्योग आदि के कार्य के लिए निर्मित किया गया हो, जिनमें दुकानें, व्यापारिक गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि से हैं।

(6) औद्योगिक निर्माण, से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि किसी वस्तु, उपकरण, आदि के निर्माण एवं समुच्चयन (Assemble) के लिए किया गया हो परन्तु इसमें हलवाई, रेस्टोरेन्ट आदि शामिल नहीं है।

(7) "जन उपयोगी सेवा के निर्माण" से तात्पर्य ऐसे निर्माण जो कि जनकल्याण हेतु किये जायें से है, जिसमें धार्मिक स्थल, धर्मशाला, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।

(8) "शासकीय सम्पत्ति" से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत कौठ की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय के भवन से है, परन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों की सम्पत्ति शामिल नहीं है।

(9) "निवास गृह" से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिये निर्मित हो, से है।

(10) "अधिसूचना" से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(11) "विहित अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।

(12) "नगर पंचायत का अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत कौठ के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी से है।

**स्पष्टीकरण**— ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3— विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये नक्शा/मानचित्र स्वीकृत करने के लिये शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

(1) आवासीय भवन दशा में— आवासीय भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

	रुपये
(क) 50 वर्गमीटर तक	1,000.00
(ख) 50 से अधिक और 100 वर्गमीटर तक	2,000.00
(ग) 100 से अधिक और 150 वर्गमीटर तक	3,000.00
(घ) 150 से अधिक और 200 वर्गमीटर तक	4,000.00
(ङ) 200 से अधिक और 300 वर्गमीटर तक	5,000.00
(च) 300 वर्गमीटर तक से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर या उसके भाग के लिये	500.00

(2) व्यवसायिक भवन की दशा में— व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

	रुपये
(क) 20 वर्गमीटर तक	2,000.00
(ख) 20 वर्गमीटर से अधिक और 50 वर्गमीटर तक	3,500.00
(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्गमीटर या उसके भाग तक	1,000.00

**स्पष्टीकरण**—संयुक्त आवासीय तथा व्यवसायिक भवन को व्यवसायिक भवन माना जायेगा।

(3) औद्योगिक भवन की दशा में— औद्योगिक भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

	रुपये
(क) 150 वर्गमीटर के लिये	4,000.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए	1,000.00

(4) निजी शैक्षिक, तथा उपयोग के भवन की दशा में— निजी शैक्षिक, उपयोग के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

	रुपये
(क) 100 वर्गमीटर के लिये	1,000.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए	500.00

(5) केवल किसी चाहरदीवारी की दशा में— प्रत्येक प्रकार की किसी भी चाहरदीवार (Boundary Wall) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

	रुपये
(क) प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिए	500.00
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये	100.00

4— परन्तु अग्रेतर यह है, कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति निम्नवर्णित शर्तों के साथ दी जायेगी—

(1) भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिला भवन भूकम्परोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किया जायेगा। (शासनादेश संख्या-1410/9-2-2001-7(12)/01 न0वि0अनु0-2, दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अनुसार एवं शासन द्वारा निर्गत किये गये समस्त विद्यमान विविध शासनादेशों के अनुसार )

(2) प्रत्येक प्रकार के भवन में एक या अधिक (आवश्यकतानुसार) शौचालय होना आवश्यक है।

(3) 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये जल-संचयन (Water Harvesting) प्रणाली का होना अनिवार्य होगा।

(4) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्ध या नियन्त्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अधिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री आदि) हो, वह उनमें उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1916(2) की धारा-268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था और दैनिक सफाई सुनिश्चित करायेगा।

(5) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्निशमन/दमकल (Fire Brigade) विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण की स्वीकृति से पूर्व अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

(6) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर आदि से 200 मीटर अर्द्धव्यास क्षेत्र में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है, तो वह मान्य होगी। धार्मिक भवन मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर आदि के मानचित्र पास कराने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा परन्तु धार्मिक भवन निर्माण के मानचित्र में धार्मिक भवन के निर्माण के साथ ही साथ अन्य किसी व्यावसायिक आदि गतिविधि को संचालित करने हेतु भवन/दुकान आदि (जोकि धार्मिक भवन निर्माण के नक्शे में सम्मिलित हो) निर्माण का नक्शा पास कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर नियमानुसार शुल्क देय होगा।

(7) उपरोक्त धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

5— प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया—

(1) भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्धन/परिवर्तन आदि सम्बन्धित समस्त प्लान (मानचित्र) (तीन प्रतियों में) प्रार्थना-पत्र सहित अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष नगर पंचायत काँठ को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके साथ स्वामित्व के कागजात एवं समस्त विशिष्टियों का शपथ-पत्र (नोटरी प्रमाणित) भी दिया जायेगा।

(2) मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित वार्ड के राजस्व मोहरर/टैक्स कलेक्टर, निर्माण लिपिक/अधिकृत लिपिक एवं सम्बन्धित लेखपाल (यदि आवश्यक हो) अथवा अन्य सक्षम कर्मचारी/अधिकारी जिसे नगर पंचायत उचित समझे, की आख्या प्राप्त की जायेगी, तत्पश्चात् मानचित्र को अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष के द्वारा नगर पंचायत के अवर अभियन्ता के पास उनके विभाग से सम्बन्धित विषयों पर सूक्ष्म जांच कर मत देने हेतु भेजा जायेगा।

(3) यदि किसी मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व के अभिलेख में कोई संशय अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को प्रतीत होता है तब उसके लिये नगर पंचायत के अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता अन्य कोई समक्ष प्राधिकारी जिसे नगर पंचायत उचित समझे, से विधिक राय भी प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा। लोक निर्माण विभाग की सड़क की दोनों ओर भवन मानचित्र स्वीकृती लोक निर्माण विभाग की भवन मानचित्र स्वीकृत करने सम्बन्धित अधिकारिता/दूरी, जो लोक निर्माण विभाग समय-समय पर नियत करें, को छोड़कर ही भवन मानचित्र स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नगर पंचायत काँठ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) नगर पंचायत के द्वारा प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति केवल तभी प्रदान की जायेगी—

(क) जब नगर पंचायत के अवर अभियन्ता द्वारा जाचोंपरान्त मत सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो,

(ख) भूमि के स्वत्व (Title of Land) की पुष्टि हो गई हो,

(ग) यदि मामले में नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई हो और राय प्रतिकूल ना हो,

(घ) नगर पंचायत को इस बात से समाधान हो गया हो कि प्रार्थी/स्वामी ने विहित विशिष्टियों/विद्यमान विविध भवन निर्माण सम्बन्धित शासनादेशों के अनुसार भवन निर्माण किये जाने के लिये पर्याप्त गारण्टी दे दी है।

(5) मानचित्र स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिशासी अधिकारी की संस्तुति से नगर पंचायत अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी के द्वारा इन शर्तों के साथ पारित किया जायेगा कि यदि भवन स्वामी के द्वारा प्रचलित किसी भी नियम/उपनियम/शासनादेश का उल्लंघन किया जाता है अथवा सम्बन्धित भूमि में सरकारी/नगर पंचायत की भूमि/अन्य किसी व्यक्ति की भूमि शामिल होती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। मानचित्र पर मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर होंगे जिसकी एक प्रति नगर पंचायत कार्यालय में मूल आदेश के साथ सुरक्षित रखी जायेगी तथा मानचित्र की दो प्रतियाँ एवं मानचित्र स्वीकृत करने का पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षरों से कर भवन स्वामी को दिया जायेगा। भवन मानचित्र की स्वीकृति/अस्वीकृति से सम्बन्धित अन्तिम आदेश अध्यक्ष महोदय में निहित होगा जिसे किसी भी दशा में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

6— नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नहीं होगा तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का 50/— रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क बाह्य विकास शुल्क के रूप में देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी —

(1) कॉलोनी की सड़कें कम से कम 7.5 मीटर चौड़ी होंगी तथा उक्त सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, यदि 100 मीटर से अधिक कॉलोनी की सड़क की लम्बाई होती है तब सड़क की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर चौड़ी होगी, तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 12 मीटर होगी तथा यथासम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी।

(2) कॉलोनी में पानी की निकासी आदि के लिये नाला/नाली मानक के अनुसार अनिवार्य रूप से निर्माण कराने की जिम्मेदारी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की होगी।

(3) कॉलोनी में मानक के अनुसार पक्की सड़कों के अनिवार्य रूप से निर्माण की जिम्मेदारी भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की होगी।

(4) कॉलोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी।

(5) कॉलोनी में 20 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना अनिवार्य होगा, यथासम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेंगी।

(6) कॉलोनी में जलापूर्ति के लिये पाईप लाईन व प्रकाश व बिजली की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही अनिवार्य रूप से करनी होगी।

(7) कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही कॉलोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा तथा उसके पश्चात् उक्त कॉलोनी नगर पंचायत प्रबन्धन में हो जायेगी तथा उसके पश्चात् कॉलोनी से गृहकर/जलकर आदि अन्य कर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा, तथा उसके पश्चात् कॉलोनी में सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी।

(8) अगर व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अपने द्वारा निर्मित कॉलोनी के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं करना चाहती है अथवा आर0डब्ल्यू0,ए0 बनाकर करना चाहती है तब उसके लिये उसे नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा और नगर पंचायत की कोई जिम्मेदारी कॉलोनी के अन्दर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने अथवा निर्माण कराने की नहीं होगी। परन्तु नगर पंचायत इस उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर/अन्य कर को लगाने का अधिकार होगा। जिसकी दर इस सम्बन्ध में निर्मित उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर/अन्य कर का आधा होगी।

(9) जहाँ पर निर्माण सम्बन्धित नियम स्पष्ट नहीं हैं, वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) के प्रावधान लागू होंगे।

(10) कॉलोनी में आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड को क्रय करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत से नियमानुसार स्वीकृत करवाना होगा जिसके सम्बन्ध में भवन मानचित्र से सम्बन्धित नियम/शर्तें लागू होंगी।

## 7— मानचित्र स्वीकृति की अवधि —

(1) मानचित्र उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार केवल एक वर्ष के लिये वैध होगा, तथा उस समयावधि के अन्तर्गत भू-स्वामी को भवन का निर्माण प्रारम्भ करना होगा,

(2) यदि भवन स्वामी उपनियम 5(1) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो अवधि समाप्त की दिनांक से तीन माह तक 1,000/— रुपये प्रतिमाह का शुल्क अदा करके मानचित्र को वैध करवाना होगा तथा उसके पश्चात् प्रत्येक माह के लिये 500/— रुपये शुल्क अदा करे मानचित्र को वैध करवाया जा सकता है, जो कि अधिकतम 3 वर्षों तक के लिये किया जा सकता है इसके पश्चात् पुनः नये मानचित्र की प्रक्रिया अपनानी होगी तथा पूर्व में अदा शुल्क की कोई राशि नये मानचित्र में समायोजित नहीं की जा सकेगी, और ना ही वह राशि वापिस ही की जायेगी,

(3) निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि भवन स्वामी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर मानचित्र को पुनः वैध करवाये बिना निर्माण किया जाता है, तब वह निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।

(4) भवन स्वामी के द्वारा किये गये उक्त अपराध को समझौता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार शमन किया जा सकता है।

(5) कोई भी भवन निर्माण व्यवसायिक/आवासीय भवन की दशा में मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 3 वर्षों में पूर्ण कराना आवश्यक होगा।



(6) कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत कराने की दशा में कॉलोनी में मानचित्र के अनुसार निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 5 वर्षों में किया जाना आवश्यक होगा।

#### 8- नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र का संशोधन-

(1) नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत किसी मानचित्र के संशोधन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित संशोधित मानचित्र के साथ मानचित्र स्वीकृति के लिये दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2) मानचित्र के संशोधन के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व केवल इस बाबत जाँच की जानी होगी कि वह संशोधन किसी उपविधि अथवा नियम के विरुद्ध तो नहीं करवाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पुनः किसी अन्य ऐसी जाँच अथवा आख्या की कोई आवश्यकता मानचित्र के संशोधन के लिये नहीं होगी जो कि पूर्व में ही मूल मानचित्र के लिये प्राप्त की जा चुकी हो। अन्य कोई जाँच आख्या जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा संशोधित मानचित्र की स्वीकृति हेतु आवश्यक समझा जाय, तो इस निमित्त सम्बन्धित जाँच आख्या लिये जाने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष को होगा।

(3) मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा।

#### 9- मानचित्र स्वीकृति के लिये विभिन्न नियम-

(1) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 212-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी तक नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाये, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेंगी।

(2) उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है, अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।

(3) नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत के द्वारा लाईसेन्स प्राप्त नक्शानवीस/आर्कीटेक्ट के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा।

(4) आवासीय भवनों के निर्माण के लिये निर्माण में कुल 20 प्रतिशत क्षेत्रफल आगे व पीछे की तरफ खाली छोड़ना अनिवार्य होगा।

(5) व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(6) मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व नगर पंचायत अथवा अन्य किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार/अन्य किसी व्यक्ति में निहित पाया जाता है, तब मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, और उस मानचित्र के आधार पर कोई अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे।

#### 10- मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना निर्माण करने की दशा में प्रक्रिया-

(1) अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को नियमानुसार हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा।

(2) परन्तु यदि ऐसा निर्माण अगर नियमों के अनुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाईसेन्सधारी मानचित्रकार/नक्शानवीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को आवासीय भवन के लिये समझौता शुल्क रु0 5,000 लेकर निर्माण को नियमित कर सकेगा, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क 10,000/- रु0 होगा, लेकिन किसी धार्मिक स्थल, धर्मशाला आदि निर्माणों के लिये समझौता शुल्क नगर पंचायत बोर्ड निर्धारित करेगा।

(3) यदि ऐसा कोई निर्माण उपनियमों के अनुसार निर्मित नहीं है, तब ऐसे निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, और ना ही ऐसे किसी मामले में समझौता ही किया जा सकेगा, तथा ऐसे निर्माण को नगर पंचायत कौठ से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी अथवा नगर पंचायत के द्वारा स्वयं नियमानुसार हटवाया जा सकेगा, तथा ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिये जो व्यय होगा उसे भी भवन स्वामी से ही नियमानुसार वसूल किया जा सकेगा और नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अर्न्तगत दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत चालान आदि की कार्यवाही भी ऐसे भवन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार की जा सकेगी।

11—यदि 200 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये मानचित्र स्वीकृत कराने का आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि मानचित्र जल संचयन (Water Harvesting) प्रणाली लगाने का प्रावधान मानचित्र में होता है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी परन्तु यदि भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण में यदि मानचित्र के अनुसार जल संचयन (Water Harvesting) प्रणाली भवन में लगी नहीं पाई जाती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क के 5 गुने के बराबर धनराशि भवन स्वामी से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

12—यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

**आवेदन-पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा—**

13—मानचित्रों के चार सेट नियत शुल्क अदा कर प्रस्तुत किये जायेंगे।

14—जमा किये जाने वाले मानचित्रों में “की प्लान” साईट प्लान” तलपट मानचित्र और सर्विसेज प्लान भी शामिल होंगे।

15—समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञापित संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेंगे इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।

16—पंजीकृत बैमाने की सत्यापित छायाप्रति, गृहकर की रसीद, भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्वावेज एवं निर्धारित किये गये शपथ-पत्र।

17—आधार-कार्ड की छाया प्रति।

18—आवेदक/आवेदिका के फोटो।

19—शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटो ग्राफ।

**भू-गृह (बेसमेन्ट)–**

20—बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोईघर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

21—आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।

22—बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेपटी सुनिश्चित करते हुए भू-खण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमन्य होगा।

**बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा—**

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।

(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोषाकक्ष, बैंक सेलर आदि।

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जाये।

(घ) पार्किंग स्थल और गैराज।

(ङ) पुस्कालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।

23— बेसमेन्ट का प्रयोग भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊँचा होगा।

24— बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जायेगा।

25— बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।

26— सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

### अपराधों का शमन उपविधि

27— मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाये जायेगे “फ्रण्ट साईड” एवं पीछे के सेट-बैक में अनाधिकृत निर्माण शमनीय होगा।

28— शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा।

29— रुपये 10.00 प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।

30— रुपये 10.00 प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।

31— नगर पंचायत काँठ की सीमा से 2 मील की दूरी तक विविध निर्माण कार्य यथा— भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नाली/नाला निर्माण, जल निकास आदि को नियन्त्रित/विनियमित करने की शक्ति नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 212-क के अन्तर्गत नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।

32— नगरपालिका बोर्ड में निहित अथवा उसके प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों पर यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा करता है, कब्जा होने के समय से कब्जा मुक्त होने तक की अवधि का वित्तीय मूल्यांकन कराकर विधिक कार्यवाही करने एवं दण्ड अध्यारोपित करने की शक्ति नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।

33— नगर पंचायत काँठ की सीमा से लगे हुए क्षेत्र की सड़क/नाला/नाले आदि को यदि कोई व्यक्ति/कॉलोनी नाईजर/संस्था नगर पंचायत काँठ की सीमा के अन्तर्गत सड़क/नाली/नाले आदि जोड़ना चाहता है, तो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-202, 203, 204 एवं 205 के अन्तर्गत लिखित में आवेदन नगर पंचायत को प्रस्तुत करेगा जिस पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न शर्तों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगा।

34— यदि कोई व्यक्ति/कालोनीलाईजर/फर्म/संस्था आदि बिना अनुमति के नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क, भवन, नाली/नाला आदि का निर्माण करता पाया जाता है, तो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-207 एवं 208 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त निर्माण को ध्वस्त करने के उपरान्त जुर्माना वसूलने की शक्ति नगर पंचायत बोर्ड में निहित होगी।

35— किसी भी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग के रूप में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-221 के अन्तर्गत अंगीकार किया जा सकेगा।

### दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

36— उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

इकबाल आलम,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत काँठ,  
मुरादाबाद।

### सूचना

मेरे पुत्र हर्षित यादव के हाई स्कूल वर्ष 2023 अनुक्रमांक 23183539 के अंकपत्र में उसका नाम भूलवश मेरे पुत्र का नाम : HARSHIT पिता का नाम SAMAR BHADUR माता का नाम NEETU दर्ज है, जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक नाम HARSHIT YADAV पिता का नाम SAMAR BAHADUR YADAV माता का नाम NEETU YADAV है।

समर बहादुर यादव,  
पुत्र रामदुलार यादव, जौनपुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम मंजू यादव (MANJU YADAV) है जो उनके आधार कार्ड, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी सेवा से सम्बन्धित सेवा पुस्तिका में मेरी पत्नी का नाम मंजू (MANJU) अंकित हो गया है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मदन लाल,  
पता-वार्ड नं0-2,  
उत्तरी धर्मशाला झूंसी नगर पंचायत,  
प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अब्दुल कयूम पुत्र स्व0 दोस्त मुहम्मद है, जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-8334 3802 4694 में मेरा नाम शेख अब्दुल कयूम दर्ज हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अब्दुल कयूम पुत्र स्व0 दोस्त मुहम्मद के नाम से जाना व पहचाना जाए।

अब्दुल कयूम,  
पता-ए0एल0-5/6 विश्व बैंक,  
ए0डी0ए0 कालोनी नैनी,  
प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम RAM NARESH PAL पुत्र शिवनाथ पाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम RAM NARESH PAUL पुत्र SHIV NATH PAUL अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे सही नाम RAM NARESH PAL पुत्र शिव नाथ पाल (SHIV NATH PAL) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम नरेश पाल,  
गड़रियन खेड़ा, गहरौली,  
रायबरेली।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शाहफकीर शाहेदाबानू शाहिदअली पुत्री शाहिदअली पत्नी जाहिद अली है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7938 4972 0423 में मेरा नाम शाह शाहेदा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शाहफकीर शाहेदाबानू शाहिदअली पुत्री शाहिदअली पत्नी जाहिद अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शाहफकीर शाहेदाबानू शाहिदअली,  
पता- 205एच/के/3सी कसारी मसारी,  
पोस्ट- जी0टी0बी0 नगर, थाना धूमनगंज  
जनपद-प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम मोहम्मद याहिया खान है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे

हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक-23268429 सन् 2024 में मेरे पिता का नाम मोहम्मद याहिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मोहम्मद सारिया,  
पता-गोतनी उपरहार प्रतापगढ़,  
उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ननका पुत्र मोहन लाल है, जो कि मेरे सभी सरकारी अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6881 8325 1432 में मेरा नाम राम खेलावन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ननका पुत्र मोहन लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ननका पुत्र मोहन लाल,  
पता-जलालपुर चांधन उर्फ पीथीपुर,  
पोस्ट-अटरामपुर थाना-नवाबगंज,  
तहसील सोरांव जनपद-प्रयागराज।

### सूचना

सूचित किया जाता है कि M/s. Creative Campers ग्राम रूस्तमपुर, शिवपुर, जिला वाराणसी के फर्म में कुल तीन साझीदार क्रमशः रामनयन सिंह, चंचल कुमार व विकास फर्म स्थापित किया, जिसका रजि0 सं0 4179/7वी-15764 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 कायम हुआ, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को डिजाल्व व समाप्त कर दी गयी है और अब किसी भागीदारी फर्म से कोई भी लेन देन नहीं है।

राम नयन सिंह,  
ग्राम-रूस्तमपुर, पोस्ट-आशापुर,  
जिला-वाराणसी।

### सूचना

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लावण्या गुप्ता पुत्री संजय कुमार गुप्ता है, जो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के हाईस्कूल के अंक पत्र (अनुक्रमांक 23266999) में उसका नाम लावण्या (Lavanya) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम लावण्या गुप्ता पुत्री संजय कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जावे।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजय कुमार गुप्ता,  
पता-427/ए, ममफोर्डगंज,  
जनपद-प्रयागराज/इलाहाबाद।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अवि दक्ष पुत्र नीरज कुमार है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेख में मेरे पुत्र का नाम शिओ प्रजापति अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अवि दक्ष पुत्र नीरज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नीरज कुमार,  
पता- ग्राम उसमापुर,  
पोस्ट-दुमदुमा, तहसील हण्डिया,  
जिला-प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सूचित करना है कि मेरे पुत्र का सही नाम गर्वित सिंह (GARVIT SINGH) है जो उसके आधार कार्ड और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका

नाम (GARVIT SINGH) से बदलकर गविष्ट सिंह (GAVISHT SINGH) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को GAVISHT SINGH पुत्र RAJESH SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाय।

राजेश सिंह,  
पुत्र लालता प्रसाद सिंह,  
निवासी-3ए, रुम खेरहटखुर्द, जारी बाजार,  
जारी, प्रयागराज, उ0प्र0।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दलवीर सिंह,  
प्रोपराईटर/साझीदार,  
M/s Friends Filling Station,  
Ahmednagar, Bulandshahar,  
To Anoopsahar Road,  
Tehsil Anoopsahar, District Bulandshahar.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s Bikaru International 331/306A(8) Bhalla Estate, Jajmau, Kanpur Nagar (U.P.) फर्म के पार्टनरसिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पूर्व पार्टनर श्री विकारु गौतम पुत्र बदलू, पता-414 डी0 डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, कानपुर नगर, उ0प्र0 अपनी स्वेच्छा से दिनांक 10 अगस्त, 2024 को फर्म की साझेदारी से पृथक/अलग हो गये हैं। दिनांक 10 अगस्त, 2024 से फर्म के साझेदारों की स्थिति निम्नवत है:-

1. Mr. Hitendra Kumar S/o Bikaru Gautam, R/o 414 D- Defence Colony, Jajmau, Kanpur. (U.P.)
2. Surendra Kumar S/o Bikaru Gautam R/o 414 D- Defence Colony, Jajmau, Kanpur. (U.P.)

सुरेन्द्र कुमार,  
(पार्टनर)

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करता है की M/s Friends Filling Station, Ahmednagar, Bulandshahar To Anoopsahar Road, Tehsil Anoopsahar, District Bulandshahr की साझीदारी श्री दलवीर सिंह एवं श्री देवेन्द्र कुमार गौतम साझीदार थे। दिनांक 26 नवम्बर, 2024 की विघटन डीड के अनुसार साझीदारों से श्री देवेन्द्र कुमार गौतम अलग हो गये हैं। फर्म प्रोपराईटर में श्री दलवीर सिंह द्वारा संचालित होगी। फर्म पर किसी का कोई बकाया नहीं है।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "एम0एम0 कन्स्ट्रक्शन", सी-81, आशियाना कालोनी, फेस-1, कांठ रोड, मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को हसनैन अली पुत्र मुस्तफा अली निवासी सी-81, आशियाना फेज-1 कांठ रोड, मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को मौ0 दानियाल अली पुत्र मुजाहिद अली व उजैफ अली पुत्र मुजाहिद अली निवासीगण सी-81, आशियाना फेज-1, काठ रोड, मुरादाबाद शामिल हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्रीमती नसरीन फातमा (50%), श्री मौ0 दानियाल अली (25%) श्री उजैफ अली (25%) रह गये हैं।

श्रीमती नसरीन फातमा,  
पार्टनर,  
फर्म मेसर्स "एम0एम0 कन्स्ट्रक्शन",  
सी-81, आशियाना कालोनी,  
फेस-1, कांठ रोड, मुरादाबाद (यू0पी0)

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक संख्या-5209171 में मेरे पिता का नाम शुकेत अली अंसारी और माता का नाम महेर जहाँ अंसारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पिता के शैक्षिक अभिलेखों के अनुसार उनका सही नाम शौकत अली है एवं मेरी माता के पैन, आधार के अनुसार उनका सही नाम महेर जहाँ पत्नी शौकत अली है। मुझे मो0 अली अंसारी पुत्र शौकत अली के नाम से जाना जाए।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मो0 अली अंसारी,  
निवासी—के/510 कटरा,  
पी एस0 कोतवाली नगर, बाराबंकी।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पुष्पेन्द्र गुप्ता PUSHPENDRA GUPTA पुत्र शिवचन्द्र गुप्ता है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड नं0 3892 7630 6285 में मेरा नाम PUSPENDRA GUPTA अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पुष्पेन्द्र गुप्ता PUSHPENDRA GUPTA पुत्र श्री शिवचन्द्र गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

पुष्पेन्द्र गुप्ता,  
PUSHPENDRA GUPTA  
पुत्र शिवचन्द्र गुप्ता,  
निवासी—ग्राम रसूलपुर, रसूलपुर,  
पोस्ट—सूरजपुर,  
जिला—मऊ, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विपेन्द्र कुमार पुत्र देवी सहाय है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 2554 8154 9960 में मेरा नाम योगेन्द्र सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विपेन्द्र कुमार पुत्र देवी सहाय के नाम से जाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विपेन्द्र कुमार,  
पता—निरखी पो0 दयाल नगर,  
थाना जहानाबाद, जिला-फतेहपुर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स सिद्धि विनायक इण्डेन सर्विस स्टेशन रोड अंतू, प्रतापगढ़ के भागीदार रवीन्द्र प्रताप सिंह का निधन दिनांक 07 अप्रैल, 2024 को हो गया है तथा उनके स्थान पर पूनम सिंह दिनांक 07 अप्रैल, 2024 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुई हैं, अब फर्म में भागीदार की भागीदारी का अनुपालन क्रमशः अखिल प्रताप सिंह का 60% एवं पूनम सिंह का 40% होगा। फर्म के मृतक भागीदार रवीन्द्र प्रताप सिंह का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

अखिल प्रताप सिंह,  
पुत्र स्व0 रवीन्द्र प्रताप सिंह,  
निवासी—स्टेशन रोड अन्तू, प्रतापगढ़।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 पी0आर0 एस्टेट एसोसिएट्स, 398 आनन्दवन फेस-2 मथुरा में साझेदार श्रीमती सरोज देवी अग्रवाल पत्नी श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री प्रवीन कुमार पोनिया पुत्र श्री राम कुमार प्रताप सिंह, श्री रीतेश अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, श्री गिराज अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 24 नवम्बर, 2023 को संचालन की थी दिनांक 06 नवम्बर, 2024 से श्रीमती सरोज देवी अग्रवाल पत्नी श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री गिराज अग्रवाल पुत्र श्री राज कुमार अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं। फर्म में उनका कोई लेन-देन बकाया नहीं है अब फर्म को श्री प्रवीन कुमार पोनिया, श्री रीतेश अग्रवाल संचालित करेंगे।

प्रवीन कुमार पोनिया,  
साझेदार।

### सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मै0 के0आर0एम0 इन्फ्राकोन, म0 नं0—18/44 शान्ती सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़—202001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह है कि दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को फैरी गुप्ता पुत्री श्री मनोज कुमार गुप्ता, निवासी 18/44, शान्ती सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा फर्म के प्रथम साझेदार श्री किशन स्वरूप वर्मा पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी 2/17, निकट लोहचब नर्सिंग होम, किशनपुर, रामघाट रोड, अलीगढ़ फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। अब फर्म में श्री मनोज कुमार गुप्ता तथा फैरी गुप्ता साझेदार हैं।

साझेदार,  
मनोज कुमार गुप्ता,  
मै० के०आर०एम० इन्फ्राकोन,  
म० नं०-18/44 शान्ती सरोवर कॉलोनी,  
रामघाट रोड, अलीगढ़-202001

### NOTICE

In my daughters Aadhar card No-2850 0300 7565 her name is incorrectly mentioned as Yashika instead her correct name as mentioned in her academic documents and certificates is mentioned as Samriddhi. Hence her name Aadhar card should in mentioned as Samriddhi.

Sunita Devi Saroj,  
W/o Sushil Kumar,  
H. No. 779 Paltan Bazar,  
Normal Chauraha Sultanpur.